

## MANGALAM CEMENT LTD.



MC/SEC March 04, 2021

BSE Ltd. Phiroze Jeejebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001

Security Code: 502157

National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

Security Code: MANGLMCEM

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper cutting for Publication of Voting Results of Hon'ble NCLT Convened Meetings.

Pursuant to the regulation 30 and all other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we attach herewith copy of newspaper advertisement published in "Financial Express" (All Editions in English Daily) and "Rashtradoot" (Rajasthan Edition in Hindi Daily) containing the voting results of Hon'ble NCLT convened meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors held on Monday, the 01st day of March, 2021 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means in connection with the approval of Scheme of Amalgamation of Mangalam Timber Products Limited with the Company.

Please take the information on record.

Yours faithfully, For: Mangalam Cement Limited

Manoj Kumar Company Secretary

Encl.: as above

Regd. Office & Works: P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kota (Raj.) CIN: L26943RJ1976PLC001705, Telefax: 07459 - 232156

Website: www.mangalamcement.com, E-mail: email@mangalamcement.com

Kota Office

: Shop No. 20, 80 Feet Road, Opp. Sukhdham Colony, (Near SBI Bank) Kota - 324001 (Rajasthan)

Mob: 9351468064 / 9351468055 / 9351468445, E-mail: mclkta@kappa.net.in

Delhi Office

: 153, Leela Building (GF), Okhla Indl. Estate, Phase-III, New Delhi - 110020

Tel. No.: 011-43539132, 43539133, 43539137 Fax: 011-23421768

E-mail: delhi.purchase@mangalamcement.com, delhi.marketing@mangalamcement.com

Jaipur Office

2<sup>nd</sup> Floor, Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 006 (Rajasthan)

Tel.: 0141 - 2218933, 2218931, E-mail: jaipur.marketing@mangalamcement.com

Before the National Company Law Tribunal Jaipur Bench, Jaipur CA(CAA) No.72 / 230 / JPR / 2020 Read with IA No. 427/JPR/2020

CA(CAA) No.72 / 230 / JPR / 2020 In the Matter of the Companies Act, 2013 - Section 230(1) read with Section 232(1)

DECLARATION OF RESULTS OF MEETINGS A. The resolution for approval of the Scheme of Amalgamation of Mangalam Timber Products Limited (Transferor Company) with Mangalam Timber Products Limited (Transferor Company) was approved by requisite majority at the meeting of the equity shareholders conducted through postal ballot, remote e-voting and e-voting at the meeting held on 1st March, 2021 at 10:00A M (IST) through video conferencing/other audio visual means ("VC/OAVM") and unanimously at the respective meetings of secured and unsecured creditors of the sald,Transferee company conducted through remote e-voting and e-voting held on 1st March, 2021 at 12.00 NOON: (IST) and 2.30 P.M.: (IST) respectively through VC/OAVM in terms of the order dated 12th March, 2020 in CA (CAA) No. 72/ 230 / JPR / 2020 modified by order dated 7th January 2021 in I.A. No. 427/JPR/2020 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur Bench ("NCLP") in the following manner:

			For	Agai	inst	
51.	Particulars	No. of Persons	No. of Votes	No. of Persons	No. o	Votes
1	Equity Shareholders (Promoter and Promoter Group) (a) By Postal Ballot (b) By Remote e-voting (c) By E-voting during the meeting	1 8	85000 6307820		1 1 1	
	Total	9	6392820		3	
2	Equity Shareholders (Public Shareholders) (a) By Postal Ballot (b) By Remote e-voting (c) By E-voting during the meeting	2· 99	200600 5503086 834141	5.	777	7284
*	Total	105	6537827:	. 5	77	7284
	Total (1) + (2)	114	12930647	. 5 1	77	7284
3	Secured Creditors (a) By Remote e-voting (b) By E-voting during the meeting	. 8	6127458574	1		
	Total .	8	6127458574	7,	-	
4	Unsecured Creditors (a) By Remote e-voting (b) By E-voting during the meeting	1551.	1036352229		- ;	
	Total	1551	1036352229	2 4 2 2		

B. It is clarified that in terms of the said orders of the Hon'ble NCLT (a) no other meetings were directed to be held; and (b) option for casting votes by postal ballot/ remote e-voting / e-voting during the virtual meeting held on 1st March, 2021 at 1000 A.M. was given only to the equity shareholders. Secured and Unsecured Creditors were given the option of voting by remote e-voting and e-voting during the virtual meeting held on 1st March, 2021 at 12:00 NOON (IST) and 2.30 P.M. (IST) respectively. No votes were declared invalid in any of the respective meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and/or the Unsecured Creditors of the Company Results of the meetings of the Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of the Company was declared on 2nd March, 2021 and was uploaded simultaneously on the website of the Company i.e. www.mangalamcement.com

C. Accordingly, I declare that the resolution for approval of the Scheme was adopted by the requisite majority of the equity shareholders and unanimously by the secured and unsecured creditors, as aforesaid.

Pradeep Pinches
Chairperson appointed for the meetings of Equity Shareholders,
Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company vide
order dated 12th March, 2020 in CA (CAA) No. 72/230 JPR / 2020,
modified by order dated 7th January 2021 in IA. No. 427/JPR/2020
of the Hon'ble National Company Law Tribunal Jaipur

Dated this 03rd day of March, 2021

MANGALAM CEMENT LIMITED

Regd. Office; P.O. Adityanagar, 32,6520, Morak,
Dist. Kota (Rajasthan) | GIN: L26943RJ1976PLC001705
Phone: +91 7459 233 127 | Fax: +91 7459 232 036. Website: www.mangalamtement.com • e-mail: shares@mangalamcement.com





# बदमाश गिरफ्तार

दूदू, (निसं)। क्षेत्र में अवैध रूप से दूरू थाने की पुलिस ने तीन ट्रक जब्त बताया कि प्लिस को मिली स्चना के अवैध बजरी से भरे तीन ट्रक जब्त कर भवानी सिंह निवासी निवाई, शिवराज, मुकेश जाट को गिरफ्तार कर ग्यारह कर तीन जनों की गिरफ्तार कर लिया। अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे खनन कर बजरी परिवहन करने के दौरान पुलिस उपअधीक्षक विजय सेहरा ने बाद थाना निरीक्षक ने मय टीम के जयप्र लाख रूपदे का जुमीना लगाया। बातचीत करने का कारण पूछा तो उसने उसके पिता को गालियां दी। विवाहिता को भी बातचीत में मोबाइल पर ही तीन बार तलाक तलाक तलाक ससुराल पीरुका जाने पर ससुराल पक्ष 27 फरवरी रात्रि को गांव पीरुका में करीब आठ बजे विवाहिता के पिता के फोन पर उसके पति का फोन आया उसने पिता को कहा कि उसकी पली से बात करा दीजिए। पिता ने पति से कह दिया। पिता के विवाहिता के का पहला मामजा द्व

थाने में न्दर्ज कराया है। पहाड़ी थाना

पुलिस के अनुसार पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने बांले गांब सतवाडी निवासी

मेबात इलाके में पत्नी को मोबाइल पर

कामां, (निस्)। कामां सर्किल के पहाड़ी

किछि

तीन तलाक देने का पहला मामला सामने

आया है। जिसको लेकर पीडिता ने पहाड़ी

विवाहिता ने अपने पति साहित सास ससुर और देवर जेठ समेत कई लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला संरक्षण एवं विवाह अधिकार अधिनियम के तहत

उद्युप्त म

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले में पुलिसकर्मी तथा तीन शिक्षक आए हैं। ET ST F F F F क्षित्रवार का स्टाफ नर्स में

क्लोज कांटेक्ट जाले,०4 नए संक्रमित अंबेडकरनगर हिरणमारी सेक्टर 14 मिले हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र से ७६ से शिक्षिका,गणेशनगरपहाडाकालका पाँजिटिल मरीजों में से 32 क्लोज मातारोड से शिक्षक, सामुदायिक भवन आज 5 कोरोना वारिवर्स संक्रमित मिले के दरमियान संक्रमण लगने की वजह है जिसमें से एक स्टाफ नर्स एक से जांच कराने पर संक्रमित मिले हैं। 45 वर्ष बाद भूडावाली एरिया से खेरथल कोविड-19 प्रभारी डॉ शंकर एच क्षेत्र से जिसमें 5 कोशेना वारियर्स, 03 बामनिया ने बताया कि 18 पॉजिटिन संक्रमित मरीजों में से 12 मरीज शहरी बुधवार को 18 पॉजिटिव पाये गए। कांटेक्ट वाले, 4 नए संक्रमित मिला

चिकित्सालय में कार्यरत हरिदास जी पुलिस जवान में महिला कान्स्बेबल निवासी पुलिस लाइन टेकरी, शिक्षक में सेक्टर 11 से की शिक्षिका अपने इसूटी महाराणा भोपाल मल्लातलाई निवासी स्टाफ नर्स

जयपुर बेच, अयपुर सीए (सीएए) न. 72/230/जेपीआर/2020 समक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

सहपतित आहुए नं, 427/जेपीआप/2020 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में - धारा 230 (1) के साथ सहपतित धारा 232 (1)

मंत्रम सीम्द सिसिट्ड, जिसे कंपनी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के उसीन कंपनी बनाया गया है तथा कंपनी अधिनियम 2019 के उस्वी में कंपनी होने के बतीर इसका कॉपिट आइडिन्टिफिक्शन में 1. L8843P.1976PLC001705 हैं एवं इसका पंजीकृत कार्यालय, पो.ओ. आदिय नगर 328530, गेहक जिला-सोटा राजस्थान राज्य में स्थित है।

वाफिर बहुवान से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उत्तर्शतिकों कंपनी के सुरक्षित व अन्सुरक्षित निजयों की संबंधित बैठकों में सर्वचन्नति से अनुपीदिव किया गया विस्तवा आयोजन 1 मार्च 2021 अपरास्त 12.00 वर्जे (आईपस्टी) व 2.20 वर्जे वेपरास्त (आईपस्टी) में वी. सी./ओपक्षीरम के मायान से आजीजित बैठक में पिताई, है लीटित व है लीटित करके किया गया। इस केबत अवाजीजन मान्तीय जयूरीय करनी (सिवी अधिकारण, उत्पयुष्ट वेप (एनसिवाटित)) के सी. ए. (सीएए) नं 2.220,4वीधपर(2004) में 2020 को जायी आवशानुसार की आई. ए. नं 427,3वीधपर(2020 में 7 जनवरी 2021 को आदे सशोधित आवशानुसार किया गया, जिनका विवस्त मिनासुसार है। मंगतम टिक्टर प्रहक्त लिमिटेड (हस्तातरणकर्ती कंपनी का मंगतम तीमन्द्र लिमिटेड (उतिस्ती कंपनी) के लाग में सम्मेतित करने की योजना है संकर्प का अनुमंदन हेते, इसका अनुमोदन इतिकटी शेपर होट्डरों की । मर्त 2021 के प्रतर 10.00 बने (अइंट्रक्टि) वीडिया कॉन्केरिसायूजन शव्म-यूच्य सावनों (वीसी:अधिवीएन) के माध्यम से आयोजित हैठक में पोस्टत हैक्ट, रिमोट ई नीटिंग एवं है नीटिंग के माध्यम से हैठक : बैठको के परिणामों की घोषणा

ie.	विवरण		पक्षमे	विरोध मे	
·tri		व्यक्तियों की	मतोकी	व्यक्तियोकी	मतिकी
		संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
	इक्विटी श्रेयरहोत्डर्स (प्रोमोटर व प्रोमोटर समूह)				
	(क) पोस्टल बैलट के द्वारा	-	85000		÷
	(ख) रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा.	80	6307820	i	7
	(ग) बैठक के दौरान ई-मीटिंग द्वारा				,
	ओड	on.	6392820		
	इक्वित्री शेयर होत्डर्स (पक्षिक शेयर होत्डर्स)				
	(क) पोस्टल बैलट द्वारा	2	200600		9
	(ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा	66	5503086	S	777284
e.	(ग) बैठक में ई-वोटिंग द्वारा	4	834141	·	
	जोड .	105	6537827	5	777284
-	ओड(1)+(2)	114	12930647	5	777284
	सुरक्षित होनवार (क्रेडिटर्स) (क) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा	83	6127458574	3	
	(ख) बठक म ई-वाटिग द्वारा				
	ગાંડ	80	6127458574		ř
-	असुरक्षित लेनवारों (क्रेडिटर्स) (क) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा (ख) डैठक में ई-वोटिंग द्वारा	1551	1036352229		
T	42	1551	1036352229	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, which	

यह प्राणित किया जाता है कि मानतीय एम्सीएटी के उपर्युक्त कीत अपेश के अनुस्तर (क) अप्य कोई बैठऊ आयोजित करने का ति तिवह नहीं दिया का आपेश प्रतिकृति ने माने दिया है। यह ते की दिया के प्रतिकृति कि प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति कि प्रतिकृति कि अपेश के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति कि प्रतिकृति के प्रतिकृति कि प्रतिकृति के स्ति भीकी किया गया तथा तथा है हैने कंतन हैं उस करते के अपना है. अपना है है हैं पर वासिन कहनता गया है। उस प्रतित अपन तत्तुसार, में घोषणा करता है कि स्वीम के अनुमंदन का सकत्य इतियी शेयरचारकों के द्वारा वासिन बहुनत छवं सुरक्षित असुरक्षित असुरक्

बेसहारा परिवारों को सरकार की योजना के तहत आवासीय भूखण्ड दिये जायेंगे।

वरना नगर पालिका कार्यवाही करेगी। के साथ दस्ते ने पहुंच कार्यवाही शुरू द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत मांगी जिस पर उन्हें 7 दिन की मोहलत दी गई है। उन्होंने कहा कि

इसी के तहत पुलिस संरक्षण में जेसीबी की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड

जिला-काटा (राजस्थान) CIN: L26943RJ1976PLC001705 दूरभाष- +91 7459 233 127, फैक्स- +91 7459 232 036

उत्तम दिनांक - 3 मार्च 2021

ग्रधवार को भुडावाली के अतिक्रमियों

नगर पालिका द्वारा मुक्त कराए जाने

का दावा किया जा रहा है।

अतिक्रणकारियों के कब्जे में है। जिसे

जमीन

सरकारी

पंजीकृत कार्यालय-पो.आ.आदित्य नगर 326520, मोइक

### और मुनादी कर चेतावनी दी गई थी कि वे 3 दिन में अपने अतिक्रमण हटालें आशियाने, आलीशान गरीब परिवारों ने भी भू-माफिया सहित भवन और दुकाने अतिक्रमण कर बना डालीं खैरथल, (निसं)। नगर पालिकां के डालीं । भुडावाली नाम से पहन्त्रान जिला कलेक्टर ने करीब 45 वर्ष पूर्व कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए अधिशाषी अधिकारी शुभम गुप्ता द्वारा शुभारम्भ उस भू-भाग से किया है जहां पिछले सत्तर सालों में प्रशासन द्वारा एक बार भी कार्यवाही नहीं किये जाने परिणामस्वरूप वहां भू-माफिया सहित गरीब परिवारों ने भी अतिक्रमण कर अपने आशियाने बना डाले। बहुतों आलीशान भवन और दकाने बना रखने वाली इस विशाल 88 बीघा मूमि की पृष्ठभूमि में जाएँ तो अलवर अतिक्रमण हराओ

कलेक्टर ने गरीब परिवारों की आवासीय योजना बनाने के लिए मुफ्त में नगर पालिका को दी थी जमीन

न हटाए आतक्रमण

अधिशाषी अधिकारी

की सहमति सामने आई।

मामला दर्ज कराया है।

खैरथल में भुडावाली की बेशकीमतें सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को ध्वस्त करते जेसीबी के साथ दस्ता।

जिला कलेक्टर की शर्त के तहत

शर्त पर यह जमीन मुफ्त में नगर

पालिका को प्रदान की थी।

आवासीय योजना बना उन्हें बसाने की

नाम पर गरीबों के लिए आवासीय योजना बना भूखण्डों के वितरण हेतु न्यूनतम शुल्क सहित हजारों चेयरमैन रोघा का कार्यकाल (उस निर्वाचित चेयरपैन हीरानन्द रोघा की ओर से इस उबड़-खाबड 88 बीघा भूमि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा नगर पालिका गठन के ब्राद प्रथम आवेदन पत्र भी जमा कर लिये थे किन्त्

जवाहर नवीदय विद्यालय, राजकीय कार्यालय भवन, संस्कृत स्कृल भवन सैटेलाइट अस्पताल, तहसीलदार ऐसी भूल-धुसरित हुई कि आवेदकों के लम्बे संघर्ष के बाद भी उन्हें भूखण्ड समय 3 वर्ष) समाप्तं हो जाने के बाद अज्ञात कारणों से यह आवासीय योजना मिलना तो दूर की बात जमा कराई गई राशि भी नहीं लौटाई गई।

हालांकि बाद के वर्षों में नगर पालिका द्वारा नि:शुल्क प्रदत्त भूमि पर

अन्य को भूमि आवंदित की गई है। इस 88 बीधा भूमि के अतिरिक्त भी आदि का निर्माण हो चुका है और राजकीय महाविद्यालय भवन सहित नगर पालिका की सैकड़ों बीघा

भुडावाली सहित

के एक थिए मंडल ने पालिकाध्यक्ष हरीक्ष्मिका से भेंटकर उनकी सम्पत्ति E Legoue अधिकारी शुभम गुप्ता ने क्र नगर पालिका के सभी अतिक्रणकारियों को वि

सित्हों से बचाने के लिए

य हो की गुहार की।

0

0

0

0

0

कंक्रीट का सच्चा साथी

कंपनी विधि अधिकरण, जयपुर के सी.ट. (सीसीण में, 12/230)जैपीअप/2200 में पारित आदेश 12 मार्च, 2200 के अनुसरण आहे, ए.न. 421/जेपीअप(2200 में परित संशोधित आदेश, जनवरी 2021 के तहत की गई।

अध्यक्ष की नियुक्ति कंपनी के इविवदी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों व असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए माननीय राष्ट्रीय